



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

घटना का अनावरण, माल सहित शातिर गिरफ्तार

दिनांक:-19.11.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा जनपद में लूट/चोरी/नकबजनी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए टीम का गठन कर घटनाओं को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 19.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद श्री रवि शंकर प्रसाद के नेतृत्व में गठित थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.10.2022 की शाम ग्राम शिवपुरी के पास राजपुर चौराहे स्थित केदार नाथ ज्वैलर्स के सुनार के साथ हुई घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त मनोज कुमार यादव पुत्र रामलोटन निवासी ग्राम बजारपुरवा थाना रेउसा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त के पास से 04 अदद पायल, 06 अदद बिछुआ सफेद धातु, 01 अदद सिक्का सफेद धातु, 01 अदद मांग बेंदी पीली धातु, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद पर्स, 01 अदद मोबाइल कीपैड(सैमसंग) व 5,000/- रुपये तथा प्रयुक्त एक मोटर साइकिल (UP34AE3612) हीरो HF DELUXE व 01 तंमचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। संलिप्त अन्य अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। बरामद अवैध शस्त्र के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 358/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार निरंतर प्रभावी कार्यवाही चलती रहेगी।

अनावरित अभियोग:- मु0अ0सं0 343/2022 धारा 392/411 भा.द.वि थाना थानगांव सीतापुर

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 358/22 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना थानगांव सीतापुर।

अभियुक्त का नाम व पता:- मनोज कुमार यादव पुत्र रामलोटन निवासी ग्राम बजारपुरवा थाना रेउसा जनपद सीतापुर

बरामदगी-

1. 5,000 /- रुपये नगद
2. 06 अदद बिछुआ सफेद धातु
3. 01 अदद सिक्का सफेद धातु
4. 01 अदद मांग बेंदी पीली धातु
5. 01 अदद आधार कार्ड
6. 04 अदद पायल
7. 01 अदद पर्स
8. 01 अदद मोटर साइकिल हीरो HF DELUXE (नीले रंग की)
9. 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर
10. 01 अदद मोबाइल सैमसंग की-पैड

पुलिस टीम थाना थानगांव-

1. थानाध्यक्ष श्री अजय कुमार रावत
2. उ०नि० श्री अरविन्द कुमार शुक्ला
3. का० अम्बुज तिवारी
4. का० सतीश कुमार



